

## जीसस यूथ पुनर्प्रतिबद्धता दिवस की धर्मविधि - 2017

- 1) जीसस यूथ प्रतिबद्धता दिवस के लिए धर्मविधि आठ भागों में समाहित है (ये हैं परिचय, भजन संहिता, ईशवचन, ईशवचन पर मनन-चिंतन, जीसस यूथ प्रतिबद्धता की शपथ, प्रतिउत्तर, मध्यस्थ प्रार्थना और समापन)
- 2) धर्मविधि को और अधिक अर्थपूर्ण और समारोही बनाने के लिये, एक प्रार्थनामय वातावरण होना बेहतर है।
- 3) आप एक गीत से शुरूआत कर और फिर परिचयात्मक भाग में जा सकते हैं।
- 4) स्तुति और आराधना भजन संहिता के बाद है - दूसरा भाग
- 5) ईश वचन के जयघोष के बाद (भाग 3), सभी बैठकर ईश वचन के मनन चिंतन को सुनते हैं, यह मनन शांति में भी हो सकता है (भाग 4) अगर इस धर्मविधि के पहले पवित्र मिस्सा हो और साथ ही उसमें प्रवचन भी हो।

### - जीसस यूथ प्रतिबद्धता की शपथ (भाग 5)

**- जो लोग पुनर् प्रतिबद्ध हो रहे हैं पहले शपथ लेंगे और जो लोग पहली बार प्रतिबद्ध हो रहे हैं वे इसके बाद**

- 6) यह भाग समन्वयक के जिनकी पुनर्प्रतिबद्ध होने की इच्छा है, उनको आगे आने के आमंत्रण के साथ शुरू होता है (अगर जो प्रतिबद्धता लेना चाहते हैं उनकी संख्या बड़ी है, तब आगे आने के बजाय जो पुनर्प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं, जब बाकी लोग बैठे हों,)
- 7) तब आयोजक जो पुनर्प्रतिबद्ध होना चाहते हैं उनसे चार प्रश्न पूछते हैं।
- 8) इसके बाद आयोजक वेदी के सामने बैठता है और दो वरिष्ठ जीसस यूथ अगुवे साक्षी के रूप में उनके अगल बगल में खड़े हो जाते हैं।
- 9) जो अभ्यर्थी पुनर्प्रतिबद्ध होना चाहते हैं एक के बाद एक आयोजक के सामने घुटने टेक कर और (जब पुनर् प्रतिबद्ध या प्रतिबद्ध होने वालों की संख्या ज्यादा है तब इसे समूह में किया जा सकता है)

- प्रतिबद्धता की शपथ पढ़ते हैं
- शपथ पढ़ने के बाद अभ्यर्थी वेदी पर शपथ पर हस्ताक्षर करते हैं
- जिस हिस्से में वे अपनी जानकारी भरते हैं, फाड़ कर वेदी पर रखा जाता है
- वरिष्ठ जीसस यूथ अगुवे अभ्यर्थियों को “जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र” देते हैं (संगीत दल इस दौरान गीत गा सकते हैं)

**जहाँ संख्या बड़ी है, यह समूहों में भी किया जा सकता है।**

### **पुनर् प्रतिबद्धता की शपथ**

- जो पुनर्प्रतिबद्ध होने वाले हैं खड़े हो सकते हैं जब तक आयोजक और दो वरिष्ठ अगुवे वेदी पर हैं।
- इसके बाद वो सभी जो पुनर्प्रतिबद्ध होने वाले हैं, पुनर्प्रतिबद्धता की शपथ एक साथ पढ़ेंगे और अपने स्थान पर ही उस शपथ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- तब वे वेदी के समीप आकर शपथपत्र का वह हिस्सा जहाँ उन्होंने जानकारी भरी है, को वेदी पर रख देते हैं। (संगीत दल इस समय गीत गा सकते हैं।)
- वरिष्ठ जीसस यूथ अगुवे अभ्यर्थियों को वेदी पर से “जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र” देते हैं।
- जब “जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र” उन्हें मिल जाता है, वे सभी अपने स्थानों पर चले जाते हैं।

### **प्रतिबद्धता की शपथ**

- जो प्रतिबद्ध होने वाले हैं, आयोजक और दो वरिष्ठ अगुवे वेदी पर रहने तक, खड़े हो सकते हैं।
- इसके बाद वो सभी जो प्रतिबद्ध होने वाले हैं, प्रतिबद्धता की शपथ एक साथ पढ़ेंगे और अपने स्थान पर ही उस शपथ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- तब वे वेदी के समीप आकर शपथपत्र का वह हिस्सा जहाँ उन्होंने जानकारी भरी है, को वेदी पर रख देते हैं। (संगीत दल इस समय गीत गा सकते हैं।)
- वरिष्ठ जीसस यूथ अगुवे अभ्यर्थियों को वेदी पर से “जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र” देते हैं।
- जब “जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र” उन्हें मिल जाता है, वे सभी अपने स्थानों पर चले जाते हैं।

10) जब प्रत्येक अपने स्थान पर वापस चला जाये तब आयोजक उन सभी जिन्होंने प्रतिबद्धता की शपथ ली उनके लिये एक प्रार्थना करते हैं।

11) सभी खड़े होकर भाग 6 उत्तर, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक की विधि (जो कि घुटने टेककर की जा सकती है) और पवित्र आत्मा की स्तुति विनती पढ़ते हैं

### **फुल टाइमर जुबिली वर्ष का उद्घाटन (कृपया पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें)**

12) इसके बाद मध्यम प्रार्थना और समापन है, जिसके पश्चात समाप्ति गीत है।

## प्रतिबद्धता दिवस को ध्यान रखने वाली कुछ बातें

- 1) सभी के लिये धर्मविधि छपवाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं, धर्मविधि का पावर पाइंट सभी को दिखाया जा सकता है
- 2) कृपया शपथ की पर्याप्त प्रतियाँ लाना सुनिश्चित करें (पुनर्प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता) क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिबद्ध हो रहा है, उसे एक व्यक्तिगत प्रति की आवश्यकता है।
- 3) शपथ दो भागों में है, एक जहाँ वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरते हैं, वेदी पर रखी जायेगी और दूसरा हिस्सा शपथ के साथ जिसपर हस्ताक्षर होना है, पुनर्प्रतिबद्ध या प्रतिबद्ध होने की याद के तौर पर घर ले जाया जायेगा।
- 4) कृपया सुनिश्चित करें की आपके पास जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ हैं। प्रतिबद्धता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेदी से प्रार्थना की एक प्रति दी जाती है।
- 5) समन्वयक व्यक्तिगत जानकारी वाले कागजों जिन्हें वेदी पर रखा गया है, को इकट्ठा करता है और ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये फार्म में भरता है।
- 6) पुनर्प्रतिबद्धता दिवस धर्मविधि, शपथ, जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना इत्यादि जीसस यूथ प्रार्थना एप्प में उपलब्ध रहेंगे। यही वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- 7) कृपया याद रखें कि पुनर्प्रतिबद्धता या प्रतिबद्धता लेने वालों में से प्रत्येक के पास शपथ जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है और जीसस यूथ दैनिक प्रार्थना घर ले जाने के लिये रहेगी।